



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1524]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2006/पौष 5, 1928

No. 1524]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2006/PAUSA 5, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2149(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1179 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 26 जुलाई, 2006 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में ताम्बरम तालुक के सेंट थॉमस मॉउण्ट गाँव में काथीपाड़ा जंक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 का निर्माण (चौड़ा करने, चार लेन का बनाने और जंक्शन का सुधार करने/निर्बाध यातायात सुविधाओं का निर्माण करने), अनुसूचन, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 14 अगस्त, 2006 को “दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस” और “दिनामनी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में ताम्बरम तालुक के सेंट थॉमस माउन्ट गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के काथीपाड़ा जंक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कांचीपुरम	ताम्बरम	सेंट थॉमस माउन्ट और पल्लावरम छावनी	407/3	7	गुंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट		1159.78	हिंदुस्तान टेलिप्रिन्ट्स लि०
				407/4	7	गुंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट		1702.71	हिंदुस्तान टेलिप्रिन्ट्स लि०
				427/9	9	निजी	नम	0338.00	श्रीमती अन्नाम्मल पत्नी वेम्बुली
				427/10	9	निजी	नम	0340.50	थिरु अलगनाथम पुत्र दूरईसामी
				427/18B	9	निजी	नम	0084.00	श्रीमती मैरी फ्रांसिस पत्नी सी. जे. फ्रांसिस
				427/31	9	निजी	नम	0100.35	श्रीपुरम कॉलोनी प्रथम क्रास स्ट्रीट

[फा. सं. भाराप्र/13012/4/98-पीआई/3डी/सेंट थॉमस माउन्ट/एलए/एसपी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2006

S.O. 2149(E).— WHEREAS, by the notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1179 (E), dated the 26th July, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th July, 2006 and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to said notification, for building (widening, four laning and junction improvement / construction for free flow facilities), maintenance, management and operation of National Highway No. 45 at Kathipara Junction, in St. Thomas Mount village, Tambaram Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" and "Dinamani", both dated the 14th August, 2006 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land for Kathipara Junction of National Highway No.45 in St. Thomas Mount Village, Tambaram Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Block number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owner/ interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kancheepuram	Tambaram	St. Thomas Mount and Pallavaram Cantonment	407/3	7	Guindy Industrial Estate		1159.78	Hindustan Teleprinters Limited
				407/4	7	Guindy Industrial Estate		1702.71	Hindustan Teleprinters Limited
				427/9	9	Private	Wet	0338.00	Tmt. Annammal W.o. Venbuli
				427/10	9	Private	Wet	0340.50	Thiru. Alaganantham S o. Duraisamy
				427/18B	9	Private	Wet	0084.00	Tmt. Mary Francis W o. C.J.Francis
				427/31	9	Private	Wet	0100.35	Sripuram Colony 1 st cross street

[F. No. NHAI/13012/4/98-PI/3D/St. Thomas Mount/LA/SP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.